

Bihar STET

Previous Year Paper

PGT (Commerce)

18 Sept, 2023 Shift 2



ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION



Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants



Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!



Test

Prime



SUCCESS GALLERY!

MEET THE ACHIEVERS



Shreya, SBI PO



Sahil, SBI PO



Srijita, SBI PO



Vikram, IBPS PO



Neeti, IBPS PO



Arya, IBPS PO



Hasan, SSC CGL



Palak, SSC CGL



Priti, UP TGT



Aniket, Bihar Stet



Shaurya, NTPC



Sarita, CTET



Gourav, NTPC



Sanni, NTPC



Abhishek, CTET



Sapna, IBPS Clerk

THEY DID IT. YOU CAN TOO

READ THEIR STORIES!



QUESTION PAPER
Uchcha Madhyamic Commerce [SHIFT - 2]

Exam Date : 18/09/2023	Time : 03:00 PM - 05:30 PM
Subject Name : Commerce	Subject Code : 225

Subject Question

Question 1
सामान्यतः आगम आय का लेखांकन उस समय किया जाता है जब
Answer :
(A) उत्पाद हो जाता है।
(B) वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है।
(C) वस्तु का आदेश मिल जाता है।
(D) वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाता है।

Right Answer :
वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है।

Question Id : 1
Option Id
☐ 1001
☐ 1002
☐ 1003
☐ 1004

Right Option Id : 1002

Question 2
विक्रय वापसी बही हिस्सा है
Answer :
(A) सहायक बही का
(B) क्रय बही का
(C) खाता बही का
(D) विक्रय बही का

Right Answer :
सहायक बही का

Question Id : 55
Option Id
☐ 55001
☐ 55002
☐ 55003
☐ 55004

Right Option Id : 55001

Question 3
तलपट बनाने के उद्देश्य है:-
Answer :
(A) अन्तिम खाता बनाना
(B) खाताधारियों की शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना
(C) A' और 'B' दोनों से
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
A' और 'B' दोनों से

Question Id : 54
Option Id
☐ 54001
☐ 54002
☐ 54003
☐ 54004

Right Option Id : 54003

Question 4
उच्यत्त खाता है:-
Answer :
(A) वास्तविक खाता
(B) नाममात्र खाता
(C) व्यक्तिगत खाता
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
व्यक्तिगत खाता

Question Id : 53
Option Id
☐ 53001
☐ 53002
☐ 53003
☐ 53004

Right Option Id : 53003

Question 5

अदत्त व्ययों को वर्ष के अन्त में लाभ-हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है?

Answer :

- (A) मिलान अवधारणा
- (B) पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा
- (C) उपाार्जन अवधारणा
- (D) चालू स्थिति की अवधारणा

Right Answer :

चालू स्थिति की अवधारणा

Question Id : 52

Option Id

- ☐ 52001
- ☐ 52002
- ☐ 52003
- ☐ 52004

Right Option Id : 52004

Question 6

चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य कहलाता है:-

Answer :

- (A) पुँजी
- (B) कार्यशील पुँजी
- (C) मूर्त सम्पति
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

कार्यशील पुँजी

Question Id : 51

Option Id

- ☐ 51001
- ☐ 51002
- ☐ 51003
- ☐ 51004

Right Option Id : 51002

Question 7

प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है:

Answer :

- (A) आधिक्य
- (B) पुँजी कोष
- (C) डेबिट शेष
- (D) क्रेडिट शेष

Right Answer :

डेबिट शेष

Question Id : 50

Option Id

- ☐ 50001
- ☐ 50002
- ☐ 50003
- ☐ 50004

Right Option Id : 50003

Question 8

इकहरी लेखा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता है:

Answer :

- (A) एकाकी व्यापारी द्वारा
- (B) साझेदारी व्यापारी द्वारा
- (C) सार्वजनिक सीमित कम्पनी द्वारा
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

सार्वजनिक सीमित कम्पनी द्वारा

Question Id : 49

Option Id

- ☐ 49001
- ☐ 49002
- ☐ 49003
- ☐ 49004

Right Option Id : 49003

Question 9

किराया क्रय पद्धति में ह्रास की गणना करने की विधियाँ है:

Answer :

Question Id : 48

Option Id

(A) स्थाई प्रभाग पद्धति

(B) क्रमागत हास पद्धति

(C) Aऔर B दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

☐ 48001

☐ 48002

☐ 48003

☐ 48004

Right Answer :
Aऔर B दोनों

Right Option Id : 48003

Question 10
किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत क्रेता माल को किसी तीसरे पक्ष को -----।
Answer :
(A) बेच सकता है
(B) नहीं बेच सकता है
(C) बैधक रख सकता है
(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 47

Option Id

☐ 47001

☐ 47002

☐ 47003

☐ 47004

Right Answer :
बेच सकता है

Right Option Id : 47001

Question 11
गार्नर बनाम मरे का नियम तभी लागु होता है जब----- साझेदार दिवालिया हो।
Answer :
(A) एक
(B) दो
(C) एक या एक से अधिक
(D) दो से अधिक

Question Id : 46

Option Id

☐ 46001

☐ 46002

☐ 46003

☐ 46004

Right Answer :
एक या एक से अधिक

Right Option Id : 46003

Question 12
साझेदार के दिवालिया होने के कारण विघटन के समय सामान्य सूचना सभी साझेदारों के पूँजी खाते में-----हस्तान्तरित किया जाता है।
Answer :
(A) लाभ-हानि अनुपात में
(B) पूँजी अनुपात में
(C) प्राप्ति अनुपात में
(D) त्याग के अनुपात में

Question Id : 45

Option Id

☐ 45001

☐ 45002

☐ 45003

☐ 45004

Right Answer :
लाभ-हानि अनुपात में

Right Option Id : 45001

Question 13
पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को डेबिट किया जाता है-
Answer :
(A) अधिकार शुल्क खाते में
(B) भू-स्वामी के खाते में
(C) लाभ-हानि खाते में

Question Id : 44

Option Id

☐ 44001

☐ 44002

☐ 44003

(D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : अधिकार शुल्क खाते में	☐ 44004 Right Option Id : 44001
Question 14 शाखा के अन्तिम देनदार की गणना में सम्मिलित होगा- Answer : (A) नकद क्रय (B) उधार क्रय (C) नगर विक्रय (D) उधार विक्रय Right Answer : उधार क्रय	Question Id : 43 Option Id ☐ 43001 ☐ 43002 ☐ 43003 ☐ 43004 Right Option Id : 43002
Question 15 अन्तर-विभागीय सौदों के प्रकार है- Answer : (A) सेवाओं का हस्तांतरण (B) माल का हस्तांतरण (C) विकल्प A एवं विकल्प B दोनों (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : विकल्प A एवं विकल्प B दोनों	Question Id : 42 Option Id ☐ 42001 ☐ 42002 ☐ 42003 ☐ 42004 Right Option Id : 42003
Question 16 आन्तरिक निरीक्षण में शामिल होती है Answer : (A) सिर्फ लेखा (B) सिर्फ जाँच (C) लेखा और उसकी जाँच दोनों (D) इनमें से कोई नहीं Right Answer : लेखा और उसकी जाँच दोनों	Question Id : 41 Option Id ☐ 41001 ☐ 41002 ☐ 41003 ☐ 41004 Right Option Id : 41003
Question 17 जहाँ आन्तरिक जाँच पद्धति सन्तोषजनक नहीं है वहाँ अंकेक्षण की कौन-सी पद्धति ठीक रहती है? Answer : (A) चालू अंकेक्षण (B) मध्य अंकेक्षण (C) लागत अंकेक्षण (D) कर अंकेक्षण Right Answer : चालू अंकेक्षण	Question Id : 56 Option Id ☐ 56001 ☐ 56002 ☐ 56003 ☐ 56004 Right Option Id : 56001

Question 18

सत्यापन तथा मूल्यांकन दोनों

Answer :

- (A) एक ही चीजें है
- (B) अलग-अलग चीजें है
- (C) एक-दूसरे के पूरक है
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
अलग-अलग चीजें है

Question Id : 57

Option Id

- ☐ 57001
- ☐ 57002
- ☐ 57003
- ☐ 57004

Right Option Id : 57002

Question 19

' किसी सौदे की सत्यता का समर्थक करने वाले प्रलेखीय साक्ष्य को प्रमाणक कहते हैं'' किसकी परिभाषा है?है

Answer :

- (A) जे.आर.बॉटलीबॉय
- (B) लंकास्टर
- (C) आर्थर. डब्ल्यू. होम्स
- (D) स्पाइसर एण्ड पेगलर

Right Answer :
आर्थर. डब्ल्यू. होम्स

Question Id : 58

Option Id

- ☐ 58001
- ☐ 58002
- ☐ 58003
- ☐ 58004

Right Option Id : 58003

Question 20

सत्यापन के मुख्य उद्देश्य है

Answer :

- (A) कपट एवं अनियमितता का ज्ञान
- (B) सम्पत्तियों की विधमानता का पता करना
- (C) गणित सम्बन्धी शुद्धता ज्ञात करना
- (D) उपरोक्त सभी

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Question Id : 67

Option Id

- ☐ 67001
- ☐ 67002
- ☐ 67003
- ☐ 67004

Right Option Id : 67004

Question 21

कम्पनी (अंकेक्षक प्रतिवेदन) आदेश 2016 (CARO) निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है:?

Answer :

- (A) बैंकिंग कम्पनी
- (B) बीमा-कम्पनी
- (C) एकल-व्यक्ति कम्पनी
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
इनमें से कोई नहीं

Question Id : 73

Option Id

- ☐ 73001
- ☐ 73002
- ☐ 73003
- ☐ 73004

Right Option Id : 73004

Question 22

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 सम्बन्धित है:

Answer :

Question Id : 72

Option Id

(A) अंश पूँजी में कमी

(B) सुरक्षित पूँजी

(C) अंश प्रमाण-पत्र

(D) इनमें से कोई नहीं

☐ 72001

☐ 72002

☐ 72003

☐ 72004

Right Answer :
अंश पूँजी में कमी

Right Option Id : 72001

Question 23

निम्न में से किस प्रकार की कम्पनी पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागु होते है?

Answer :

(A) प्राइवेट कम्पनी

(B) पब्लिक कम्पनी

(C) सरकारी कम्पनी

(D) सभी प्रकार की कम्पनी

Question Id : 71

Option Id

☐ 71001

☐ 71002

☐ 71003

☐ 71004

Right Answer :
सभी प्रकार की कम्पनी

Right Option Id : 71004

Question 24

निम्न में से कौन सी सेवा एक अंकेक्षक द्वारा नहीं दी जा सकती है?

Answer :

(A) वैधानिक अंकेक्षण

(B) चालु अंकेक्षण

(C) परामर्श सेवा

(D) प्रबंध सेवाएं

Question Id : 70

Option Id

☐ 70001

☐ 70002

☐ 70003

☐ 70004

Right Answer :
प्रबंध सेवाएं

Right Option Id : 70004

Question 25

रेलवे कम्पनियों का अंकेक्षण करते समय संदर्भ किया जाता है?

Answer :

(A) अर्त्तनियम

(B) बर्हिँनियम

(C) रेलवे अधिनियम, 1990

(D) सभी

Question Id : 69

Option Id

☐ 69001

☐ 69002

☐ 69003

☐ 69004

Right Answer :
सभी

Right Option Id : 69004

Question 26

निम्नलिखित में से कौन अनुबन्ध के लिए सक्षम पक्ष नहीं है:

Answer :

(A) दिमागी असंतुलन वाला व्यक्ति

(B) अव्यस्क

(C) कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति

(D) उपर्युक्त सभी

Question Id : 68

Option Id

☐ 68001

☐ 68002

☐ 68003

☐ 68004

Right Answer :
उपर्युक्त सभी

Right Option Id : 68004

Question 27
किन परिस्थिति में कानून के हस्तक्षेप द्वारा अनुबंध निस्सारण संभव है:
Answer :
(A) दिवालियापन की स्थिति
(B) आवश्यक सामग्री में परिवर्तन की स्थिति
(C) विलय की स्थिति
(D) उपयुक्त सभी परिस्थितियों में

Question Id : 66
Option Id
☐ 66001
☐ 66002
☐ 66003
☐ 66004

Right Answer :
उपयुक्त सभी परिस्थितियों में

Right Option Id : 66004

Question 28
निम्नलिखित में से कौन वस्तु विक्रय अधिनियम का एक अंग है:
Answer :
(A) अंश
(B) बढ़ते फसल
(C) प्यास
(D) उपर्युक्त सभी

Question Id : 59
Option Id
☐ 59001
☐ 59002
☐ 59003
☐ 59004

Right Answer :
उपर्युक्त सभी

Right Option Id : 59004

Question 29
अदत विक्रेता को परिभाषित किया गया है:
Answer :
(A) धारा 43 के अन्तर्गत
(B) धारा 44 के अन्तर्गत
(C) धारा 45 के अन्तर्गत
(D) धारा 46 के अन्तर्गत

Question Id : 65
Option Id
☐ 65001
☐ 65002
☐ 65003
☐ 65004

Right Answer :
धारा 45 के अन्तर्गत

Right Option Id : 65003

Question 30
पराक्रमणता में प्रतिफल
Answer :
(A) गर्मित
(B) गर्मित नहीं
(C) प्रमाणित करना होता
(D) इसमें कोई नहीं

Question Id : 64
Option Id
☐ 64001
☐ 64002
☐ 64003
☐ 64004

Right Answer :
गर्मित

Right Option Id : 64001

Question 31

चैक पर रेखांकन किया जा सकता है

Answer :

- (A) थारक
- (B) आर्हाता
- (C) बैंक
- (D) उपर्युक्त सभी

Right Answer :
आर्हाता

Question Id : 63

Option Id

- ☐ 63001
- ☐ 63002
- ☐ 63003
- ☐ 63004

Right Option Id : 63002

Question 32

फर्म के विघटन में साझेदारी का विघटन है:

Answer :

- (A) सम्मिलित
- (B) सम्मिलित नहीं
- (C) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं
- (D) इसमें से कोई नहीं

Right Answer :
सम्मिलित

Question Id : 62

Option Id

- ☐ 62001
- ☐ 62002
- ☐ 62003
- ☐ 62004

Right Option Id : 62001

Question 33

केन्द्रिय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का सभापति होता है :

Answer :

- (A) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- (B) केन्द्र सरकार में उपभोक्ता मामले का भारसाधक मन्त्री
- (C) उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- (D) प्रधानमन्त्री

Right Answer :
केन्द्र सरकार में उपभोक्ता मामले का भारसाधक मन्त्री

Question Id : 61

Option Id

- ☐ 61001
- ☐ 61002
- ☐ 61003
- ☐ 61004

Right Option Id : 61002

Question 34

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत कर्ता का अर्थ है:

Answer :

- (A) केंद्र या राज्य सरकार
- (B) मृत उपभोक्ता का कानूनी प्रतिनिधि
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) (A) और (B) दोनों नहीं

Right Answer :
(A) और (B) दोनों

Question Id : 60

Option Id

- ☐ 60001
- ☐ 60002
- ☐ 60003
- ☐ 60004

Right Option Id : 60003

Question 35

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत स्वीकार करने की सीमा अवधि क्या है

Answer :

- (A) 1 साल

Question Id : 40

Option Id

- ☐ 40001

(B) 2 साल

☐ 40002

(C) 3 साल

☐ 40003

(D) 4 साल

☐ 40004

Right Answer :
2 साल

Right Option Id : 40002

Question 36
अंडराइटर की मुहर वाले आवेदन फॉर्म को कहा जाता है
Answer :
(A) अचिह्नित आवेदन
(B) एकमात्र हमीदारी
(C) फर्म अंडरराइटिंग
(D) चिह्नित आवेदन

Question Id : 39
Option Id
☐ 39001
☐ 39002
☐ 39003
☐ 39004

Right Answer :
चिह्नित आवेदन

Right Option Id : 39004

Question 37
बोनस अंशधारियों को लाभांश की अधिकतम दर.....प्राप्त होगी
Answer :
(A) 10%
(B) 25%
(C) 12%
(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 38
Option Id
☐ 38001
☐ 38002
☐ 38003
☐ 38004

Right Answer :
इनमें से कोई नहीं

Right Option Id : 38004

Question 38
जो कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का लाभ नहीं है
Answer :
(A) गति
(B) सटीकता
(C) पर्यावरण के अनुकूल
(D) डेटा भ्रष्टाचार

Question Id : 37
Option Id
☐ 37001
☐ 37002
☐ 37003
☐ 37004

Right Answer :
डेटा भ्रष्टाचार

Right Option Id : 37004

Question 39
ERP का संक्षिप्त रूप.....के लिए प्रयोग किया जाता है
Answer :
(A) उद्यम संसाधन मूल्य
(B) उद्यम उचित मूल्य
(C) इंटरप्राइज प्रतिक्रिया मूल्य
(D) उद्यम संसाधन योजना

Question Id : 17
Option Id
☐ 17001
☐ 17002
☐ 17003
☐ 17004

Right Answer :
उद्यम संसाधन योजना

Right Option Id : 17004

Question 40
वरीयता शेयर निम्नलिखित के हकदार हैं।
Answer :
(A) लाभांश की परिवर्तनीय दर।
(B) लाभांश की निश्चित दर।
(C) दोनों (ए) और (बी)
(D) न तो (ए) और न ही (बी)

Right Answer :
लाभांश की निश्चित दर।

Question Id : 16
Option Id
☐ 16001
☐ 16002
☐ 16003
☐ 16004

Right Option Id : 16002

Question 41
डिबेंचर सामान्य रूप से भुनाया नहीं जा सकता है-
Answer :
(A) प्रीमियम
(B) छूट
(C) द्वारा
(D) उपरोक्त सभी

Right Answer :
छूट

Question Id : 15
Option Id
☐ 15001
☐ 15002
☐ 15003
☐ 15004

Right Option Id : 15002

Question 42
_____ एग्रेच में संपत्ति को बैलेंस शीट में उस क्रम में बताया जाता है जिसमें उन्हें आसानी से नकदी में और देनदारियों को उस क्रम में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें उन्हें भुगतान करना होता है।
Answer :
(A) वर्णमाला क्रम
(B) स्थायित्व आदेश
(C) तरलता आदेश
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Right Answer :
तरलता आदेश

Question Id : 14
Option Id
☐ 14001
☐ 14002
☐ 14003
☐ 14004

Right Option Id : 14003

Question 43
निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करेगी जिसमें शामिल हैं: -
Answer :
(A) 5 या अधिक निदेशक, जिनमें से कम से कम 2 निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होंगे
(B) 10 या अधिक निदेशक, जिनमें से कम से कम 3 निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होंगे
(C) 5 या अधिक निदेशक, जिनमें से कम से कम 1 निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा
(D) 3 या अधिक निदेशक, जिनमें से कम से कम 1 निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा

Right Answer :
3 या अधिक निदेशक, जिनमें से कम से कम 1 निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा

Question Id : 13
Option Id
☐ 13001
☐ 13002
☐ 13003
☐ 13004

Right Option Id : 13004

Question 44

एकीकरण किया जाता है:

Answer :

- (A) पुरानी कम्पनियों का
- (B) नई कम्पनियों का
- (C) घाटे वाली कम्पनियों का
- (D) लाभ वाली कम्पनियों का

Right Answer :

घाटे वाली कम्पनियों का

Question Id : 12

Option Id

- ☐ 12001
- ☐ 12002
- ☐ 12003
- ☐ 12004

Right Option Id : 12003

Question 45

क्रय विधि में सम्पत्ति और दायित्वों को लिखा जाता है:

Answer :

- (A) उचित मूल्य पर
- (B) पुस्तकीय मूल्य पर
- (C) लागत मूल्य पर
- (D) उपरोक्त कोई नहीं

Right Answer :

उचित मूल्य पर

Question Id : 11

Option Id

- ☐ 11001
- ☐ 11002
- ☐ 11003
- ☐ 11004

Right Option Id : 11001

Question 46

अंशधारियों द्वारा त्याग की गई राशि को क्रेडिट किया जाता है:

Answer :

- (A) पूंजी कटौती खाता
- (B) पूंजी संचय खाता
- (C) रोकड़ खाता
- (D) उपरोक्त कोई नहीं

Right Answer :

पूंजी कटौती खाता

Question Id : 10

Option Id

- ☐ 10001
- ☐ 10002
- ☐ 10003
- ☐ 10004

Right Option Id : 10001

Question 47

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी:

Answer :

- (A) 1950
- (B) 1955
- (C) 1961
- (D) 1965

Right Answer :

1955

Question Id : 9

Option Id

- ☐ 9001
- ☐ 9002
- ☐ 9003
- ☐ 9004

Right Option Id : 9002

Question 48

नि. लि. में कौन जीवन बीमा कम्पनी की अनिवार्य लेखा पुस्तक नहीं है:

Answer :

- (A) बीमाधारकों की पंजी

Question Id : 8

Option Id

- ☐ 8001

- (B) दावों की पंजी
- ☐ 8002
- (C) जीवन बीमा लाइसेन्सधारक बीमा अभिकर्ताओं की पंजी
- ☐ 8003
- (D) सामान्य ऋण बही
- ☐ 8004

Right Answer :
सामान्य ऋण बही

Right Option Id : 8004

- Question 49
- मूर्त सम्पत्तियों के मूल्य में कमी को कहा जाता है:
- Answer :
- (A) ह्रास
- ☐ 7001
- (B) रिक्तीकरण
- ☐ 7002
- (C) प्रत्युत्सर्जन
- ☐ 7003
- (D) उच्चावचन
- ☐ 7004

Right Answer :
ह्रास

Right Option Id : 7001

- Question 50
- नि. लि. में कौन ह्रास की विशेषता है:
- Answer :
- (A) ह्रास नकद व्यय नहीं है
- ☐ 6001
- (B) ह्रास आयगत व्यय है
- ☐ 6002
- (C) ह्रास शनैःशनैःएवं मूल्य में स्थायी कमी होता है
- ☐ 6003
- (D) उपरोक्त सभी
- ☐ 6004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 6004

- Question 51
- निम्नलिखित में से किस लेखाविधि का प्रयोग पहले किया गया:
- Answer :
- (A) प्रबन्धकीय लेखाविधि
- ☐ 5001
- (B) लागत लेखाविधि
- ☐ 5002
- (C) वित्तीय लेखाविधि
- ☐ 5003
- (D) इनमें से कोई नहीं
- ☐ 5004

Right Answer :
वित्तीय लेखाविधि

Right Option Id : 5003

- Question 52
- निम्न में से कौन-सा मद लागत लेखा में शामिल नहीं होता है:
- Answer :
- (A) अभिगोपन कमीशन
- ☐ 4001
- (B) पूँजी पर ब्याज
- ☐ 4002
- (C) डूबत ऋण
- ☐ 4003
- (D) इनमें से कोई नहीं
- ☐ 4004

Right Answer :
अभिगोपन कमीशन

Right Option Id : 4001

Right Answer :
इनमें से कोई नहीं

Right Option Id : 4004

Question 53

लागत-योग ठेका सामान्यतः उन दशाओं में लागू होता है जहाँ:

Answer :

(A) अग्रिम में सटीक लाभ की गणना सम्भव नहीं

(B) लागत का अनुमान सरलता से किया जा सकता है

(C) ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि चाहता है

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
अग्रिम में सटीक लाभ की गणना सम्भव नहीं

Question Id : 3

Option Id

☐ 3001

☐ 3002

☐ 3003

☐ 3004

Right Option Id : 3001

Question 54

टेलर की भिलक कार्य योजना में मजदूरी के किनती दरें हैं:

Answer :

(A) एक

(B) दो

(C) तीन

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
दो

Question Id : 18

Option Id

☐ 18001

☐ 18002

☐ 18003

☐ 18004

Right Option Id : 18002

Question 55

कारखाना उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किये जाते हैं:

Answer :

(A) प्रत्यक्ष सामग्री

(B) प्रत्यक्ष मजदूरी

(C) कारखाना लागत

(D) मूल लागत

Right Answer :
प्रत्यक्ष मजदूरी

Question Id : 2

Option Id

☐ 2001

☐ 2002

☐ 2003

☐ 2004

Right Option Id : 2002

Question 56

एकल उपरिव्यय अवशोषण दर को कहा जाता है:

Answer :

(A) कम्बल दर

(B) पुरे कारखाना का अवशोषण

(C) A और B दोनों

(D) दोनों में कोई नहीं

Right Answer :
पुरे कारखाना का अवशोषण

Question Id : 19

Option Id

☐ 19001

☐ 19002

☐ 19003

☐ 19004

Right Option Id : 19002

Question 57

विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र:

Answer :

- (A) $\text{लाभ} = \frac{\text{लागत मूल्य } X\% \text{ of लाभ}}{100 + \% \text{ of लाभ}}$
- (B) $\text{लाभ} = \frac{\text{विक्रय मूल्य } X\% \text{ of लाभ}}{100 - \% \text{ of लाभ}}$
- (C) $\text{लाभ} = \frac{\text{लागत मूल्य } X\% \text{ of लाभ}}{100 - \% \text{ of लाभ}}$
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

$\text{लाभ} = \frac{\text{लागत मूल्य } X\% \text{ of लाभ}}{100 - \% \text{ of लाभ}}$

Question Id : 21

Option Id

- ☐ 21001
- ☐ 21002
- ☐ 21003
- ☐ 21004

Right Option Id : 21003

Question 58

उपकार्य लागत विधि एक रूप है:

Answer :

- (A) प्रामाणिक लागत विधि का
- (B) विशिष्ट कार्य आदेश लागत विधि का
- (C) विधि लागत विधि का
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

विशिष्ट कार्य आदेश लागत विधि का

Question Id : 36

Option Id

- ☐ 36001
- ☐ 36002
- ☐ 36003
- ☐ 36004

Right Option Id : 36002

Question 59

संयुक्त लागत व्यक्तिगत संयुक्त उत्पाद के लिए है।

Answer :

- (A) अप्राप्य
- (B) अलग
- (C) प्राप्य
- (D) मिश्रित

Right Answer :

अप्राप्य

Question Id : 35

Option Id

- ☐ 35001
- ☐ 35002
- ☐ 35003
- ☐ 35004

Right Option Id : 35001

Question 60

ठेका लागत विधि में, ठेका खाता तैयार किया जाता है

Answer :

- (A) ठेकादाता द्वारा
- (B) ठेकेदार द्वारा
- (C) ठेकादाता एवं ठेकेदार दोनों द्वारा
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

ठेकेदार द्वारा

Question Id : 34

Option Id

- ☐ 34001
- ☐ 34002
- ☐ 34003
- ☐ 34004

Right Option Id : 34002

Question 61

लाभ _____ अवधि के प्रदर्शन का माप है

Question Id : 33

Answer :

(A) लंबा

(B) छोटा

(C) मध्यम

(D) भविष्य

Option Id

☐ 33001

☐ 33002

☐ 33003

☐ 33004

Right Answer :

छोटा

Right Option Id : 33002

Question 62

बैंक ओवरड्राफ्ट _____ के बराबर है

Answer :

(A) वर्तमान देनदारियां + तरल देनदारियां

(B) वर्तमान देनदारियां - तरल देनदारियां

(C) वर्तमान संपत्ति - स्टॉक

(D) वर्तमान संपत्ति - स्टॉक और प्रीपेड खर्च

Question Id : 32

Option Id

☐ 32001

☐ 32002

☐ 32003

☐ 32004

Right Answer :

वर्तमान देनदारियां - तरल देनदारियां

Right Option Id : 32002

Question 63

त्वरित संपत्ति का हिस्सा क्या नहीं है ?

Answer :

(A) देनदार

(B) भंडार

(C) प्राप्त बिल

(D) नकद

Question Id : 31

Option Id

☐ 31001

☐ 31002

☐ 31003

☐ 31004

Right Answer :

भंडार

Right Option Id : 31002

Question 64

बिक्री की प्रवृत्ति में कमी होगी यदि :

Answer :

(A) बिक्री की मात्रा घटती है

(B) बिक्री मूल्य घटता है

(C) अप्रभावपूर्ण विज्ञापन नीति से

(D) उपरोक्त सभी

Question Id : 30

Option Id

☐ 30001

☐ 30002

☐ 30003

☐ 30004

Right Answer :

उपरोक्त सभी

Right Option Id : 30004

Question 65

आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है:

Answer :

(A) विलीय स्थिति

(B) लाभ-हानि खाता

(C) रोकड़ प्रभाव विवरण

Question Id : 29

Option Id

☐ 29001

☐ 29002

☐ 29003

(D) उपरोक्त सभी

☐ 29004

Right Answer :
वित्तीय स्थिति

Right Option Id : 29001

Question 66
वित्तीय विवरण का उद्देश्य है:
Answer :
(A) वित्तीय सूचनाएं और अर्जन क्षमता की जानकारी प्रदान करना
(B) वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी
(C) वित्तीय पूर्वानुमान में सहायत
(D) उपरोक्त सभी

Question Id : 28
Option Id
☐ 28001
☐ 28002
☐ 28003
☐ 28004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 28004

Question 67
निम्नांकित में से कौन सा सूत्र स्थिर सम्पत्ति और विक्रय के बीच का अनुपात निकालने के लिए सही है?
Answer :
(A) $\frac{\text{शुद्ध विक्रय}}{\text{शुद्ध स्थिर सम्पत्ति}}$
(B) $\frac{\text{बिके हुए माल की लागत}}{\text{शुद्ध स्थिर सम्पत्ति}}$
(C) A और B दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 27
Option Id
☐ 27001
☐ 27002
☐ 27003
☐ 27004

Right Answer :
A और B दोनों

Right Option Id : 27003

Question 68
शुद्ध लाभ में किस से भाग देने पर प्रतिअंश अर्जन मालूम होता है?
Answer :
(A) समता अंशों की संख्या
(B) पूर्वाधिकार अंशों की संख्या से
(C) कुल अंशों की संख्या से
(D) ऋण-पत्रों की संख्या से

Question Id : 26
Option Id
☐ 26001
☐ 26002
☐ 26003
☐ 26004

Right Answer :
समता अंशों की संख्या

Right Option Id : 26001

Question 69
अल्पकालीन वित्तीय स्थिति में सुधार होगा:
Answer :
(A) चालू सम्पत्ति में वृद्धि होने पर
(B) चालू दायित्व में वृद्धि होने पर
(C) चालू सम्पत्ति एवं चालू दायित्व के यथास्थिर रहने पर
(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 25
Option Id
☐ 25001
☐ 25002
☐ 25003
☐ 25004

Right Answer :

चालू सम्पत्ति में वृद्धि होने पर

Right Option Id : 25001

Question 70

अचल संपत्तियों और वर्तमान संपत्तियों के बीच के अंतर को जाना जाता है

Answer :

- (A) अचल संपत्ति कारोबार अनुपात
- (B) शुद्ध कार्यशील पूंजी
- (C) सकल कार्यशील पूंजी
- (D) छिपी हुई कार्यशील पूंजी

Right Answer :

सकल कार्यशील पूंजी

Question Id : 24

Option Id

- ☐ 24001
- ☐ 24002
- ☐ 24003
- ☐ 24004

Right Option Id : 24003

Question 71

फंड फ्लो स्टेटमेंट पर समस्या को हल करते समय यदि " कराधान के लिए प्रावधान" और " प्रस्तावित लामांश" के लिए कोई समायोजन नहीं होता है तो

Answer :

- (A) प्रारंभिक शेष और समापन शेष के बीच अंतर लाभ और हानि समायोजन खाते में स्थानांतरित होता है
- (B) प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष के बीच अंतर वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि के रूप में माना जाता है
- (C) प्रारंभिक शेष राशि के बराबर राशि को भुगतान की गई राशि के रूप में माना जाएगा और अंतिम शेष राशि के बराबर राशि को प्रावधान के रूप में माना जाएगा।
- (D) उपर्युक्त में से कोई भी

Right Answer :

प्रारंभिक शेष राशि के बराबर राशि को भुगतान की गई राशि के रूप में माना जाएगा और अंतिम शेष राशि के बराबर राशि को प्रावधान के रूप में माना जाएगा।

Question Id : 23

Option Id

- ☐ 23001
- ☐ 23002
- ☐ 23003
- ☐ 23004

Right Option Id : 23003

Question 72

पूर्वदत्त व्ययों की राशि में कमी का परिणाम होता है

Answer :

- (A) रोकड़ का स्त्रोत
- (B) रोकड़ का प्रयोग
- (C) कोई प्रभाव नहीं
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :

रोकड़ का स्त्रोत

Question Id : 22

Option Id

- ☐ 22001
- ☐ 22002
- ☐ 22003
- ☐ 22004

Right Option Id : 22001

Question 73

निम्नलिखित में से कौन सा नकदी प्रवाह नहीं है?

Answer :

- (A) देनदारों में कमी
- (B) शेयरों का निर्गमन
- (C) लेनदारों में कमी
- (D) अचल संपत्तियों की बिक्री

Right Answer :

लेनदारों में कमी

Question Id : 74

Option Id

- ☐ 74001
- ☐ 74002
- ☐ 74003
- ☐ 74004

Right Option Id : 74003

Question 74

टैक्स और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन कर और असाधारण वस्तुओं के बाद शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है? A) वर्ष के दौरान किए गए कर के लिए प्रावधान
B) वर्ष के दौरान किए गए प्रस्तावित लाभांश
C) अंतरिम लाभांश
D) सामान्य भंडार और अन्य भंडार में स्थानांतरण

Answer :

(A) ए और बी दोनों

(B) ए और सी दोनों

(C) B और C दोनों

(D) ए, बी, सी और डी

Question Id : 20

Option Id

20001

20002

20003

20004

Right Answer :
ए, बी, सी और डी

Right Option Id : 20004

Question 75

जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो बेची गई इन्वेंट्री को डेबिट किया जाता है?
Answer :
(A) आपूर्ति खर्च
(B) माल सूची
(C) गअधिकांश माल बिक गया
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
गअधिकांश माल बिक गया

Question Id : 75

Option Id

75001

75002

75003

75004

Right Option Id : 75003

Question 76

प्रत्यक्ष कर का भार:
Answer :
(A) कर दाता स्वयं वहन करता है
(B) किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है
(C) आंशिक रूप से स्वयं वहन करता है
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
कर दाता स्वयं वहन करता है

Question Id : 78

Option Id

78001

78002

78003

78004

Right Option Id : 78001

Question 77

जी.एस.टी. की प्रमुख विशेषताएं हैं:-
Answer :
(A) पूरे देश में एक समान लागू होता है
(B) कर का भुगतान उस राज्य में होता है जिसमें माल/सेवाएं अंततः उपभोग किया जाता है
(C) अगले स्तर पर भुगतेय कर में पिछले स्तर पर भुगतान किए गए कर की छुट मिलती है
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
इनमें से कोई नहीं

Question Id : 92

Option Id

92001

92002

92003

92004

Right Option Id : 92004

Question 78

करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष:-

Question Id : 93

Answer :	Option Id
(A) बदल सकती है	☐ 93001
(B) निश्चय ही बदलती है	☐ 93002
(C) नहीं बदलती है	☐ 93003
(D) इनमें से कोई नहीं	☐ 93004
Right Answer : बदल सकती है	Right Option Id : 93001

Question 79 निम्नलिखित में से कौन सी आय कर-मुक्त नहीं है: Answer : (A) स्थानीय सत्ता की आय (B) प्रैक्टिस नहीं करने के लिए भत्ता (C) चिकित्सालय की आय बशर्ते वह पूर्णतः या अंशतः सरकार द्वारा विल पोषित हो (D) विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाओं की आय बशर्ते वे पूर्णतः या अंशतः सरकार द्वारा विल पोषित हों	Question Id : 94 Option Id ☐ 94001 ☐ 94002 ☐ 94003 ☐ 94004
Right Answer : प्रैक्टिस नहीं करने के लिए भत्ता	Right Option Id : 94002

Question 80 निम्नलिखित में से कौन सी आय कर-मुक्त नहीं है: Answer : (A) प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष (B) राष्ट्रीय खेल कोष (C) राजीव गाँधी फाउन्डेशन (D) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष	Question Id : 97 Option Id ☐ 97001 ☐ 97002 ☐ 97003 ☐ 97004
Right Answer : राष्ट्रीय खेल कोष	Right Option Id : 97002

Question 81 निम्नलिखित में से कौन अनुलाभ कर-मुक्त है- Answer : (A) चिकित्सा सुविधाएँ (B) कार्यालय में नाशते की मुफ्त सुविधा (C) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा (D) ये सभी	Question Id : 96 Option Id ☐ 96001 ☐ 96002 ☐ 96003 ☐ 96004
Right Answer : ये सभी	Right Option Id : 96004

Question 82 एक सरकारी कर्मचारी को, जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन- Answer : (A) भारत में कर-योग्य है (B) भारत में कर-योग्य नहीं है (C) कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जाता है	Question Id : 91 Option Id ☐ 91001 ☐ 91002 ☐ 91003
---	--

(D) इनमें से कोई नहीं

91004

Right Answer :
भारत में कर-योग्य है

Right Option Id : 91001

Question 83
जी एस टी में एच एस एन का अर्थ क्या होता है?
Answer :
(A) हार्मोनाइज्ड सिस्टम नम्बर
(B) होम स्टेट नम्बर
(C) हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमैनक्लेचर
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमैनक्लेचर

Question Id : 98
Option Id
98001
98002
98003
98004

Right Option Id : 98003

Question 84
अधिनियम में आईजी एस टी दर की अधिकतम सीमा है:
Answer :
(A) 18%
(B) 28%
(C) 40%
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
40%

Question Id : 99
Option Id
99001
99002
99003
99004

Right Option Id : 99003

Question 85
जीएसटीएन जाना जाता है:
Answer :
(A) वस्तु एवम् सेवा कर नेटवर्क से
(B) वस्तु एवम् सेवा लेनदेन नेटवर्क
(C) वस्तु एवम् सेवा विक्री नेटवर्क से
(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
वस्तु एवम् सेवा कर नेटवर्क से

Question Id : 100
Option Id
100001
100002
100003
100004

Right Option Id : 100001

Question 86
यदि वस्तु की वांछित दर वस्तु की वास्तविक दर से न्यूनतम है तो इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है
Answer :
(A) भविष्य नकदी प्रवाह
(B) वर्तमान नकदी प्रवाह
(C) धनात्मक नकदी प्रवाह
(D) ऋणात्मक नकदी प्रवाह

Right Answer :
ऋणात्मक नकदी प्रवाह

Question Id : 95
Option Id
95001
95002
95003
95004

Right Option Id : 95004

Question 87

10 % प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजित होने पर कितने समय में 1000 की धनराशि 1331 हो जाएगी

Answer :

- (A) $\frac{1}{2}$ years
(B) $1\frac{1}{2}$ years
(C) $\frac{2}{3}$ years
(D) 2 वर्ष

Right Answer :
2 वर्ष

Question Id : 90

- Option Id
☐ 90001
☐ 90002
☐ 90003
☐ 90004

Right Option Id : 90004

Question 88

यदि किसी परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य से कम है तो हमें क्या करना चाहिए।

Answer :

- (A) परियोजना को स्वीकारना
(B) परियोजना को अस्वीकारना
(C) a या b
(D) कोई नहीं

Right Answer :
परियोजना को अस्वीकारना

Question Id : 77

- Option Id
☐ 77001
☐ 77002
☐ 77003
☐ 77004

Right Option Id : 77002

Question 89

का व्युत्पन्न ज्ञात कीजिए $f(x) = (1 + x^4 - \frac{1}{x})^{\frac{5}{3}}$

Answer :

- (A) $\frac{20}{3}x^{\frac{11}{3}} + \frac{5}{3x^{\frac{8}{3}}}$
(B) $\frac{5}{3}\left(1 + x^4 + \frac{1}{x}\right)\frac{2}{3}$
(C) $\frac{5}{3}\left(1 + x^4 - \frac{1}{x}\right)\frac{2}{3}\left(4x^3 + \frac{1}{x^2}\right)$
(D) $\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}\left(4x^3 + \frac{1}{x^2}\right)$

Right Answer :
 $\frac{5}{3}\left(1 + x^4 - \frac{1}{x}\right)\frac{2}{3}\left(4x^3 + \frac{1}{x^2}\right)$

Question Id : 88

- Option Id
☐ 88001
☐ 88002
☐ 88003
☐ 88004

Right Option Id : 88003

Question 90

$\log (\tan x)$ के सापेक्ष अवकल गुणांक का मान है

Answer :

- (A) $2 \sec 2x$
(B) $2 \operatorname{cosec} 2x$
(C) $2 \sec ^2 x$
(D) $2 \operatorname{cosec} ^2 x$

Question Id : 87

- Option Id
☐ 87001
☐ 87002
☐ 87003
☐ 87004

Right Answer :

2 cosec2x

Right Option Id : 87002

Question 91

अगर A एक विलक्षण मैट्रिक्स है, तो A (adj A) है ?

Answer :

(A) Unit Matrix

(B) Null Matrix

(C) Symmetric Matrix

(D) None

Question Id : 89

Option Id

89001

89002

89003

89004

Right Answer :

Null Matrix

Right Option Id : 89002

Question 92

अंग्रेजी का 'सांख्यिकी' शब्द जर्मन के निम्नलिखित शब्द से लिया गया प्रतीत होता है:

Answer :

(A) आंकड़े

(B) दर्जा

(C) आंकड़े

(D) सांख्यिकीय

Question Id : 86

Option Id

86001

86002

86003

86004

Right Answer :

आंकड़े

Right Option Id : 86003

Question 93

द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग ऐसी स्थितियों में किया जाता है जब प्राथमिक आंकड़े एकत्र नहीं किए जा सकते हैं।

Answer :

(A) सत्य

(B) असत्य

(C) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 85

Option Id

85001

85002

85003

85004

Right Answer :

सत्य

Right Option Id : 85001

Question 94

समान्तर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़

Answer :

(A) शून्य

(B) अधिकतम

(C) न्यूनतम

(D) इनमें से कोई नहीं

Question Id : 84

Option Id

84001

84002

84003

84004

Right Answer :

न्यूनतम

Right Option Id : 84003

Question 95

यदि 100 छात्रों का औसल अंक 50 है, तो कुल अंक क्या होगा

Answer :

- (A) 4000
- (B) 5000
- (C) 3000
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
5000

Question Id : 76

Option Id

- ☐ 76001
- ☐ 76002
- ☐ 76003
- ☐ 76004

Right Option Id : 76002

Question 96

यदि किसी श्रेणी के उच्चतम मान 40 और निम्नतम मान 20 है तो विस्तार गुणांक होगा

Answer :

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
 $\frac{1}{3}$

Question Id : 83

Option Id

- ☐ 83001
- ☐ 83002
- ☐ 83003
- ☐ 83004

Right Option Id : 83002

Question 97

रैको द्वारा सहसंबंध के गुणांक का पता लगाने की विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी-

Answer :

- (A) प्रो चार्ल्स स्पीयरमैन
- (B) ई। डेवनपोर्ट
- (C) गैल्टन और पियर्सन
- (D) प्रो बोडिंगटन

Right Answer :
प्रो चार्ल्स स्पीयरमैन

Question Id : 82

Option Id

- ☐ 82001
- ☐ 82002
- ☐ 82003
- ☐ 82004

Right Option Id : 82001

Question 98

एक दूसरी डिग्री पैराबोला में है: -

Answer :

- (A) दो स्थिर
- (B) तीन स्थिर
- (C) एक स्थिरांक
- (D) पांच लगातार

Right Answer :
तीन स्थिर

Question Id : 81

Option Id

- ☐ 81001
- ☐ 81002
- ☐ 81003
- ☐ 81004

Right Option Id : 81002

Question 99

भारत सूचकांक किसे कहा जाता है-

Question Id : 80

Answer :

(A) लेस्पेयर्स इंडेक्स

(B) फिशर का आदर्श सूचकांक

(C) Pasche का सूचकांक

(D) इनमें से कोई नहीं

Right Answer :
लेस्पेयर्स इंडेक्स

Option Id

☐ 80001

☐ 80002

☐ 80003

☐ 80004

Right Option Id : 80001

Question 100

सूचकांक संख्या के निर्माण के लिए कौन सी एक समस्या नहीं है?

Answer :

(A) वस्तुओं का चयन

(B) मूल्य का चयन

(C) आधार का चयन

(D) उद्देश्यों की समझ

Right Answer :
मूल्य का चयन

Question Id : 79

Option Id

☐ 79001

☐ 79002

☐ 79003

☐ 79004

Right Option Id : 79002

Art Of Teaching

Question 101

एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है

Answer :

(A) वाद विवाद एवं विचार विमर्श

(B) दलगत कार्य

(C) व्याख्यान

(D) स्व अध्ययन

Right Answer :
व्याख्यान

Question Id : 120

Option Id

☐ 120001

☐ 120002

☐ 120003

☐ 120004

Right Option Id : 120003

Question 102

छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है

Answer :

(A) दलगत कार्य

(B) व्याख्यान

(C) प्रदर्शन

(D) संमिश्रित विधि

Right Answer :
दलगत कार्य

Question Id : 121

Option Id

☐ 121001

☐ 121002

☐ 121003

☐ 121004

Right Option Id : 121001

Question 103

इनमें से एक शिक्षण के त्रिधुवीय प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु नहीं है

Answer :

(A) शिक्षण विधि

(B) शिक्षक

Question Id : 125

Option Id

☐ 125001

(C) शिक्षार्थी

(D) विषय वस्तु

125002

125003

125004

Right Answer :

शिक्षण विधि

Right Option Id : 125001

Question 104
शिक्षण का लक्ष्य है
Answer :
(A) सूचना प्रदान करना
(B) छात्रों को क्रिया में शामिल करना
(C) ज्ञान अंतर्निविष्ट करना
(D) व्यवहार में वांछित बदलाव लाना

Question Id : 123

Option Id

123001

123002

123003

123004

Right Answer :

व्यवहार में वांछित बदलाव लाना

Right Option Id : 123004

Question 105
आगमन विधि है
Answer :
(A) व्यथन
(B) अभ्यास
(C) विशिष्ट से सामान्य की ओर
(D) सामान्य से विशिष्ट की ओर

Question Id : 124

Option Id

124001

124002

124003

124004

Right Answer :

विशिष्ट से सामान्य की ओर

Right Option Id : 124003

Question 106
सुकरात विधि है
Answer :
(A) व्याख्यान प्रदर्शन
(B) अनुसंधान
(C) प्रश्न उत्तर
(D) व्यथन

Question Id : 119

Option Id

119001

119002

119003

119004

Right Answer :

प्रश्न उत्तर

Right Option Id : 119003

Question 107
इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है
Answer :
(A) शिक्षक केन्द्रित
(B) वास्तविक जीवन में संपादित
(C) सामाजिक वातावरण में घटित
(D) उद्देश्यपूर्ण क्रिया

Question Id : 117

Option Id

117001

117002

117003

117004

Right Answer :
शिक्षक केन्द्रित

Right Option Id : 117001

Question 108
नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए
Answer :
(A) विज्ञान
(B) गणित
(C) इतिहास
(D) भूगोल

Question Id : 126
Option Id
☐ 126001
☐ 126002
☐ 126003
☐ 126004

Right Answer :
इतिहास

Right Option Id : 126003

Question 109
मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है
Answer :
(A) प्रयोगशाला
(B) कहानी कथन
(C) प्रदर्शन करना
(D) दो प्रयोग के परिणाम के परिकलन

Question Id : 127
Option Id
☐ 127001
☐ 127002
☐ 127003
☐ 127004

Right Answer :
प्रयोगशाला

Right Option Id : 127001

Question 110
विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है
Answer :
(A) शिक्षण विधि
(B) शिक्षण सिद्धान्त
(C) शिक्षण प्रविधि
(D) शिक्षण कार्यनीति

Question Id : 128
Option Id
☐ 128001
☐ 128002
☐ 128003
☐ 128004

Right Answer :
शिक्षण सिद्धान्त

Right Option Id : 128002

Question 111
प्रस्तावना संबंधित है
Answer :
(A) पूर्व ज्ञान से
(B) नवीन ज्ञान से
(C) विशिष्ट उद्देश्य से
(D) उद्देश्य कथन से

Question Id : 129
Option Id
☐ 129001
☐ 129002
☐ 129003
☐ 129004

Right Answer :
पूर्व ज्ञान से

Right Option Id : 129001

Question 112

Question Id : 108

पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए

Answer :

- (A) पूर्व ज्ञान से
- (B) पुनरावृत्ति से
- (C) छात्र क्रियाशीलन से
- (D) नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित

Option Id

- ☐ 108001
- ☐ 108002
- ☐ 108003
- ☐ 108004

Right Answer :

नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित

Right Option Id : 108004

Question 113

पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है

Answer :

- (A) पूर्व ज्ञान से
- (B) पूर्व अनुभव
- (C) विषय ज्ञान
- (D) उपरोक्त सभी

Question Id : 130

Option Id

- ☐ 130001
- ☐ 130002
- ☐ 130003
- ☐ 130004

Right Answer :

उपरोक्त सभी

Right Option Id : 130004

Question 114

विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है

Answer :

- (A) श्यामपट्ट कार्य
- (B) उद्देश्य कथन
- (C) पुनरावृत्ति
- (D) मूल्यांकन

Question Id : 122

Option Id

- ☐ 122001
- ☐ 122002
- ☐ 122003
- ☐ 122004

Right Answer :

मूल्यांकन

Right Option Id : 122004

Question 115

पाठ योजना में शिक्षण बिन्दु का उल्लेख होता है

Answer :

- (A) प्रथम पंक्ति में
- (B) दूसरे पंक्ति में
- (C) तीसरे पंक्ति में
- (D) चौथे पंक्ति में

Question Id : 118

Option Id

- ☐ 118001
- ☐ 118002
- ☐ 118003
- ☐ 118004

Right Answer :

प्रथम पंक्ति में

Right Option Id : 118001

Question 116

किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है:

Answer :

- (A) मानकीकृत परीक्षण
- (B) शिक्षक ने परीक्षण किए

Question Id : 115

Option Id

- ☐ 115001
- ☐ 115002

- (C) ए और बी दोनों

☐ 115003
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

☐ 115004

Right Answer : मानकीकृत परीक्षण

Right Option Id : 115001

- Question 117

किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है:

Answer :

(A) वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण

(B) मानक-संदर्भित परीक्षण

(C) मानदंड-संदर्भित परीक्षण

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Question Id : 116

Option Id

☐ 116001

☐ 116002

☐ 116003

☐ 116004

Right Answer : मानक-संदर्भित परीक्षण

Right Option Id : 116002

- Question 118

नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है:

Answer :

(A) संरचनात्मक साक्षात्कार

(B) केंद्रित साक्षात्कार

(C) पैनल साक्षात्कार

(D) समूह साक्षात्कार
- Question Id : 101

Option Id

☐ 101001

☐ 101002

☐ 101003

☐ 101004

Right Answer : संरचनात्मक साक्षात्कार

Right Option Id : 101001

- Question 119

किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है:

Answer :

(A) संरचनात्मक साक्षात्कार

(B) केंद्रित साक्षात्कार

(C) पैनल साक्षात्कार

(D) समूह साक्षात्कार
- Question Id : 102

Option Id

☐ 102001

☐ 102002

☐ 102003

☐ 102004

Right Answer : केंद्रित साक्षात्कार

Right Option Id : 102002

- Question 120

आइटम विश्लेषण आम तौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है:

Answer :

(A) ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता

(B) सुविधा सूचकांक

(C) भेदभाव शक्ति

(D) उपरोक्त सभी
- Question Id : 104

Option Id

☐ 104001

☐ 104002

☐ 104003

☐ 104004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 104004

Question 121

सत्य --असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ -----है:

Answer :

(A) अनुमान लगाने का उन्मूलन

(B) व्यापक नमूनाकरण

(C) आइटम वैधता

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Question Id : 105

Option Id

☐ 105001

☐ 105002

☐ 105003

☐ 105004

Right Answer :
व्यापक नमूनाकरण

Right Option Id : 105002

Question 122

यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह -----है:

Answer :

(A) मुश्किल

(B) बहुत आसान है

(C) आसान

(D) स्वीकार्य

Question Id : 106

Option Id

☐ 106001

☐ 106002

☐ 106003

☐ 106004

Right Answer :
मुश्किल

Right Option Id : 106001

Question 123

आम तौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है:

अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का आम तौर पर -----प्रकार है:

Answer :

(A) माता-पिता को पत्र

(B) पारंपरिक अंकन प्रणाली

(C) पास-फेल प्रणाली

(D) उपरोक्त सभी

Question Id : 107

Option Id

☐ 107001

☐ 107002

☐ 107003

☐ 107004

Right Answer :
उपरोक्त सभी

Right Option Id : 107004

Question 124

मापन मूलतः -----है:

Answer :

(A) संख्यात्मक मूल्य

(B) गुणात्मक मूल्य

(C) मूल्य निर्णय

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Question Id : 103

Option Id

☐ 103001

☐ 103002

☐ 103003

☐ 103004

Right Answer :
संख्यात्मक मूल्य

Right Option Id : 103001

Question 125

Question Id : 109

मूलतः मूल्यांकन है:

Answer :

- (A) गुणात्मक मूल्य
- (B) संख्यात्मक मूल्य
- (C) मूल्य निर्णय
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Option Id

- ☐ 109001
- ☐ 109002
- ☐ 109003
- ☐ 109004

Right Answer :

मूल्य निर्णय

Right Option Id : 109003

Question 126

एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है:

Answer :

- (A) मूल्यांकन
- (B) परीक्षण
- (C) माप
- (D) उपरोक्त सभी

Question Id : 110

Option Id

- ☐ 110001
- ☐ 110002
- ☐ 110003
- ☐ 110004

Right Answer :

माप

Right Option Id : 110003

Question 127

एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है:

Answer :

- (A) कितना अच्छा है
- (B) कितना अच्छा
- (C) कितना
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Question Id : 111

Option Id

- ☐ 111001
- ☐ 111002
- ☐ 111003
- ☐ 111004

Right Answer :

उपरोक्त में से कोई नहीं

Right Option Id : 111004

Question 128

_____ का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है।

Answer :

- (A) योगात्मक मूल्यांकन
- (B) रचनात्मक मूल्यांकन
- (C) प्लेसमेंट मूल्यांकन
- (D) उपरोक्त सभी

Question Id : 112

Option Id

- ☐ 112001
- ☐ 112002
- ☐ 112003
- ☐ 112004

Right Answer :

रचनात्मक मूल्यांकन

Right Option Id : 112002

Question 129

दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है?

Answer :

- (A) प्रक्षेप्य पैमाना
- (B) लिंकर्ट स्केल

Question Id : 113

Option Id

- ☐ 113001
- ☐ 113002

- (C) सामान्य पैमाना

☐ 113003
- (D) तकनीकी पैमाना

☐ 113004

Right Answer :
लिकर्ट स्केल

Right Option Id : 113002

Question 130

योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है:

Answer :

(A) वर्तमान उपलब्धि

☐ 114001

(B) योग्यता प्राप्त की

☐ 114002

(C) संभावित क्षमता

☐ 114003

(D) समग्र मानसिक क्षमता

☐ 114004

Question Id : 114

Option Id

Right Answer :
योग्यता प्राप्त की

Right Option Id : 114002

Other Skills

Question 131

निम्नलिखित में से कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है?

Answer :

(A) बेहरामजी मालाबारी

☐ 149001

(B) बाल गंगाधर तिलक

☐ 149002

(C) महात्मा गांधी

☐ 149003

(D) बिपिन चंद्र पाल

☐ 149004

Question Id : 149

Option Id

Right Answer :
बाल गंगाधर तिलक

Right Option Id : 149002

Question 132

कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है?

Answer :

(A) असम

☐ 148001

(B) सिक्किम

☐ 148002

(C) अरुणाचल प्रदेश

☐ 148003

(D) पश्चिम बंगाल

☐ 148004

Question Id : 148

Option Id

Right Answer :
सिक्किम

Right Option Id : 148002

Question 133

वाणिज्यिक बैंकों की अपने ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?

Answer :

(A) पूंजी विस्तार

☐ 147001

(B) क्रेडिट विस्तार

☐ 147002

(C) क्रेडिट नियंत्रण

☐ 147003

(D) क्रेडिट निर्माण

☐ 147004

Question Id : 147

Option Id

Right Answer :

क्रेडिट निर्माण

Right Option Id : 147004

Question 134

बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में इसके सचिव के साथ हुआ

Answer :

- (A) आचार्य नरेंद्र देव
- (B) जयप्रकाश नारायण
- (C) रामबृक्ष बेनीपुरी
- (D) कर्पूरी ठाकुर

Question Id : 146

Option Id

- ☐ 146001
- ☐ 146002
- ☐ 146003
- ☐ 146004

Right Answer :

जयप्रकाश नारायण

Right Option Id : 146002

Question 135

‘सियोम ब्रिज’ का उद्घाटन किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है?

Answer :

- (A) असम
- (B) जम्मू और कश्मीर
- (C) अरुणाचल प्रदेश
- (D) पंजाब

Question Id : 145

Option Id

- ☐ 145001
- ☐ 145002
- ☐ 145003
- ☐ 145004

Right Answer :

अरुणाचल प्रदेश

Right Option Id : 145003

Question 136

इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है?

Answer :

- (A) चरने के लिए घास
- (B) गोंद और रेजिन
- (C) दवा
- (D) टोकरियों के लिए बांस

Question Id : 144

Option Id

- ☐ 144001
- ☐ 144002
- ☐ 144003
- ☐ 144004

Right Answer :

गोंद और रेजिन

Right Option Id : 144002

Question 137

इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है?

Answer :

- (A) प्रजातियों का लुप्त होना
- (B) सूद का बढ़ता उपयोग
- (C) बांध बनाना और खनन करना
- (D) ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग

Question Id : 143

Option Id

- ☐ 143001
- ☐ 143002
- ☐ 143003
- ☐ 143004

Right Answer :

प्रजातियों का लुप्त होना

Right Option Id : 143001

Question 138

इनमें से किस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है?विश्व पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में?

Answer :

- (A) 5 जुलाई
- (B) 10 जून
- (C) 20 अक्टूबर
- (D) 5 जून

Right Answer :
5 जून

Question Id : 142

Option Id

- ☐ 142001
- ☐ 142002
- ☐ 142003
- ☐ 142004

Right Option Id : 142004

Question 139

इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं?

Answer :

- (A) वेटलैंड्स
- (B) स्ट्रीम
- (C) डेल्टा
- (D) तटीय उथले

Right Answer :
डेल्टा

Question Id : 141

Option Id

- ☐ 141001
- ☐ 141002
- ☐ 141003
- ☐ 141004

Right Option Id : 141003

Question 140

कौन सी दवा चाय या कॉफी के पौधे के स्रोत से संबंधित है?

Answer :

- (A) कपूर
- (B) कैफीन
- (C) कांटा सेब
- (D) अफीम पोस्ता

Right Answer :
कैफीन

Question Id : 131

Option Id

- ☐ 131001
- ☐ 131002
- ☐ 131003
- ☐ 131004

Right Option Id : 131002

Question 141

5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो सभी लोगों की औसत आयु क्या है?

Answer :

- (A) 64 वर्ष
- (B) 66 वर्ष
- (C) 61.5 वर्ष
- (D) 70 साल

Right Answer :
66 वर्ष

Question Id : 139

Option Id

- ☐ 139001
- ☐ 139002
- ☐ 139003
- ☐ 139004

Right Option Id : 139002

Question 142

रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1000 दो साल के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से।

Answer :

- (A) 20
- (B) 20.5

Question Id : 138

Option Id

- ☐ 138001

- (C) 20.4
- (D) 20.6

Right Answer :
20.4

- ☐ 138002
- ☐ 138003
- ☐ 138004

Right Option Id : 138003

Question 143
भिन्नो को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें
Answer :
(A) $\frac{5}{8} < \frac{7}{12} < \frac{3}{4} < \frac{13}{16}$
(B) $\frac{5}{8} < \frac{7}{12} < \frac{13}{16} < \frac{3}{4}$
(C) $\frac{5}{8} < \frac{3}{4} < \frac{13}{16} < \frac{7}{12}$
(D) $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4} < \frac{13}{16}$

Right Answer :
 $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4} < \frac{13}{16}$

- Question Id : 137**
Option Id
☐ 137001
☐ 137002
☐ 137003
☐ 137004

Right Option Id : 137004

Question 144
दो संख्याओं का LCM 138 है। लेकिन उनका GCD 23 है। संख्याएँ 1:6 के अनुपात में हैं। दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
Answer :
(A) 46
(B) 138
(C) 69
(D) 23

Right Answer :
138

- Question Id : 136**
Option Id
☐ 136001
☐ 136002
☐ 136003
☐ 136004

Right Option Id : 136002

Question 145
यदि 6 मीटर ऊंचे टॉवर की छाया जमीन पर $2\sqrt{3}$ मीटर लंबी पड़ती है, तो सूर्य की ऊंचाई है:
Answer :
(A) 60°
(B) 45°
(C) 30°
(D) 90°

Right Answer :
 60°

- Question Id : 135**
Option Id
☐ 135001
☐ 135002
☐ 135003
☐ 135004

Right Option Id : 135001

Question 146
मैराथन का अर्थ दौड़ना है जैसे हाइबरनेशन का है
Answer :
(A) सर्दी
(B) भाव
(C) सपना
(D) नींद

- Question Id : 134**
Option Id
☐ 134001
☐ 134002
☐ 134003
☐ 134004

**Test
Prime**

By Adda247

PREVIOUS YEAR PAPERS PDF



PRACTICE MORE, SCORE HIGHER!



**Free
25,000+
PDF's**


High-Quality | Exam-Wise | Updated Regularly



**ATTEMPT AS
MOCK**



Turn PDFs into real exam experience.
Analyze. Improve. Succeed.



Topic-wise &
Exam-wise PDFs



Download &
Study Offline



Attempt as Mock
& Track Score



Smart Analysis
& Performance

AVAILABLE IN



Banking



SSC



Railway



Teaching



UGC



Agriculture



Nursing



Bihar



UP



Punjab



WB



Odisha



TN



AP & Telangana



Haryana



DOWNLOAD TEST PRIME

Test

Prime



SUCCESS GALLERY!

★ MEET THE ACHIEVERS ★



Kunal, RRB JE



Shivam, UPSSSC AGTA



Priya, ANM



KHALILUR, LDA



Manoj, PWD



Atin, JENPAS



Shatarupa, OPSC



Arpita, JENPAS



Shital, SSC JE (Mech)



Nancy, UGC NET



Atul, SSC JE (ELCT)



Rahul, SSC JE (CIVIL)



Anand, SSC JE (ELCT)



Mohan, SSC JE (ELCT)



Saurabh, UGC NET



Ved, SSC JE (Mech)

★ THEY DID IT. YOU CAN TOO ★

READ THEIR STORIES!



Right Answer :
नींद

Right Option Id : 134004

Question 147
नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें।
सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक

Answer :

- (A) किताब
- (B) रोग
- (C) प्रिंसिपल
- (D) रंगमंच

Question Id : 133

Option Id

- ☐ 133001
- ☐ 133002
- ☐ 133003
- ☐ 133004

Right Answer :
रंगमंच

Right Option Id : 133004

Question 148
इस श्रृंखला को देखें: 7, 10, 8, 11, 9, 12, ... आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए?

Answer :

- (A) 7
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 13

Question Id : 132

Option Id

- ☐ 132001
- ☐ 132002
- ☐ 132003
- ☐ 132004

Right Answer :
10

Right Option Id : 132002

Question 149
यदि Z = 52 और ACT = 48 है, तो BAT बराबर होगा

Answer :

- (A) 39
- (B) 41
- (C) 44
- (D) 46

Question Id : 140

Option Id

- ☐ 140001
- ☐ 140002
- ☐ 140003
- ☐ 140004

Right Answer :
46

Right Option Id : 140004

Question 150
यदि A, B का भाई है; B, C की बहन है; और C, D का पिता है, D, A से किस प्रकार संबंधित है?

Answer :

- (A) भाई
- (B) बहन
- (C) भतीजा
- (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

Question Id : 150

Option Id

- ☐ 150001
- ☐ 150002
- ☐ 150003
- ☐ 150004

Right Answer :
निर्धारित नहीं किया जा सकता

Right Option Id : 150004